

आज दिनांक 01 जनवरी, 2018 को नव वर्ष के शुभ-अवसर पर प्रातः 11:30 बजे मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा नवसुसज्जित डॉ. गौर हरी सिंघानिया कांफ्रेंस हॉल के उदघाटन-सत्र का आयोजन किया गया।

मर्चेट्स चैम्बर के अध्यक्ष श्री बी.के. लाहोटी ने उपस्थित सदस्यों तथा समस्त मीडियाकर्मियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दिया तथा कांफ्रेंस हॉल के बारे में जानकारी प्रदान की।

उन्होंने कहा कि उदघाटित कांफ्रेंस हॉल का नाम “डॉ. गौर हरी सिंघानिया कांफ्रेंस हॉल” रखा गया है क्योंकि डॉ. गौर हरी सिंघानिया कानपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सम्माननीय व्यक्ति थे जिन्होंने विशेषतयः कानपुर के लिए अधिकाधिक विकासशील व सहयोग प्रदान करने वाले कार्य किये, जिसमें अस्पतालों का निर्माण, उद्योगों व व्यापार को बढ़ावा देना, तथा मर्चेट्स चैम्बर के विकास के लिये समय-समय पर निर्देश देने आदि कार्य प्रमुख है। श्री लाहोटी जी ने बताया कि इस कांफ्रेंस हल की क्षमता बढ़ाकर 80 व्यक्तियों के लिए कर दी गयी है तथा इस एयर कंडीशन हॉल में प्रोजेक्टर तथा नयी ऑडियो सिस्टम की व्यवस्था कर दी गयी है तथा (कांफ्रेंस हॉल) प्रथम तल तक जाने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था भी कर दी गयी है जिससे बुजुर्गजनों तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कांफ्रेंस हॉल तक जाने में परेशानी नहीं होगी।

श्री आमित अग्रवाल ने मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के ऐप “मर्चेट्स चैम्बर यू.पी.” ऐप को लॉन्च किया जिसे गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। श्री अमित ने “मर्चेट्स चैम्बर ऐप” को चैम्बर के सदस्य (अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से) तथा अन्य व्यक्ति (अपना नाम, मोबाइल नंबर व ई-मेल आई.डी.) अपने स्मार्ट-फोन में चला सकते हैं। श्री अमित ने ऐप के बारे में जानकारी देते निम्नलिखित फीचर्स की जानकारी दिया:

- ऐप में मर्चेट्स चैम्बर कार्यकारिणी समिति की वर्णन उपलब्ध है,
- ऐप में मर्चेट्स चैम्बर के समस्त सदस्यगणों का विस्तृत वर्णन उपलब्ध है,
- चैम्बर द्वारा गठित विभिन्न कमिटियों का नाम, उसके चैयरमैन, वाईस- चैयरमैन, सलाहकार तथा उसके सदस्यों के नाम उपलब्ध है,
- चैम्बर में होने वाले कार्यक्रमों का वर्णन उपलब्ध है,
- कार्यक्रम पश्चात उसकी फोटोग्राफ्स उपलब्ध है,
- मर्चेट्स चैम्बर के प्रांगण में उपस्थित सभागार, कांफ्रेंस हॉल, तथा एनेक्सी हॉल में होने वाली बुकिंग से सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति (मर्चेट्स चैम्बर का सदस्य है अथवा नहीं है) चैम्बर के उपरोक्तलिखित प्रांगण को अमुक दिनांक व अमुक समय के लिए आरक्षित करवा सकता है, लेकिन यदि आरक्षित प्रांगण की बुकिंग 48 घंटे के अन्दर नहीं पक्की नहीं की गयी तो स्वतः ही खत्म हो जायेगी।

उदघाटन में उपस्थित गान्मन्यः श्री संजीव झुनझुनवाला, डॉ. आर.जी. बागला, डॉ. आई.एम. रोहतगी, श्री ए.के. सरोगी, श्री सुशील कनोडिया, श्री अविनाश चतुर्वेदी, श्री अनिल अग्रवाल, डॉ. जे.एन. गुप्ता, श्री प्रेम मनोहर गुप्ता, श्री संतोष गुप्ता, श्री प्रभाकर शर्मा, श्री मुकुल टंडन, श्री टीकम चन्द्र सेठिया, सहित उदघाटन में मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के लगभग 50 सदस्य उपस्थित थे तथा उपस्थित सदस्यगणों ने मर्चेट्स चैम्बर ऐप तथा कांफ्रेंस हॉल की बेहतरी के लिए अपने-अपने सुझाव प्रेषित किये हैं।

सधन्यवाद

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश